

जानी-मानी योग और वेलनेस कोच अनीता सोलंकी ने भूमना मशहूर इंडिया गेट सर्कल और कर्तव्य पथ के आस-पास साइकिल चलाई, अपनी तरह का यह अनोखा कार्यक्रम आम लोगों को दौड़ने, साइकिल चलाने, योग और जुम्बा जैसी गतिविधियों के जरिए अपनी सेहत और फिटनेस बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करती हैं।